

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 अगस्त 2022

### प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय नौसेना को हाल ही में दो MH-60R मल्टी-रोल हेलीकाप्टर प्राप्त हुए हैं?

- A) USA
- B) रूस
- C) जर्मनी
- D) ऑस्ट्रेलिया

**सही उत्तर: A**

भारतीय नौसेना को हाल ही में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संयुक्त राज्य अमेरिका से दो MH-60R मल्टी-रोल हेलीकाप्टर प्राप्त हुए हैं। सभी 24 MH-60R हेलीकाप्टरों की डिलीवरी 2025 तक पूरी कर ली जाएगी।

### प्रश्न -2

पाम तेल को बढ़ावा देने के लिए इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IVPA) ने किस देश की पाम ऑयल काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) सऊदी अरब
- B) सिंगापुर
- C) थाईलैंड
- D) मलेशिया

**सही उत्तर: D**

इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IVPA) और मलेशियाई पाम ऑयल काउंसिल (MPOC) ने पाम तेल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों संगठनों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 अगस्त 2022

### प्रश्न -3

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में किस निम्नलिखित सहकारी बैंक से धन की निकासी पर प्रतिबंध लगाया है?

- A) अर्बन को-ऑपरेटिव
- B) सारस्वत को-ऑपरेटिव
- C) लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव
- D) A और C दोनों

**सही उत्तर: D**

उत्तर प्रदेश स्थित दो सहकारी बैंक लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने फंड निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं।

### प्रश्न -4

निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लगातार 10वें वर्ष के लिए भारत में सबसे अधिक चुने गए FMCG ब्रांडों के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है?

- A) टाटा कंस्यूमर प्रोडक्ट्स
- B) पारले
- C) क्लिनिक प्लस
- D) ब्रिटानिया

**सही उत्तर: B**

कंटर इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगातार 10 वर्षों से, पारले प्रोडक्ट्स ने सबसे अधिक चुने गए FMCG ब्रांडों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 अगस्त 2022

### प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किस शहर में गूगल मैप्स ने हाल ही में अपनी "स्ट्रीट व्यू" सेवा शुरू की है?

- A) बेंगलुरु
- B) चेन्नई
- C) मुंबई
- D) उपरोक्त सभी

**सही उत्तर: D**

गूगल की "स्ट्रीट व्यू" सेवा बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर और अमृतसर में लाइव हो गई है।

### प्रश्न -6

\_\_\_\_\_ राज्य जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को हल करने के लिए "अंडर2 कोल्लिएशन" का सदस्य बन गया।

- A) छत्तीसगढ़
- B) मध्य प्रदेश
- C) पंजाब
- D) उत्तर प्रदेश

**सही उत्तर: C**

पंजाब सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को हल करने के लिए अंडर2 कोल्लिएशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 अगस्त 2022

### प्रश्न -7

भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास "EX VINBAX 2022" आयोजित किया जा रहा है?

- A) वियतनाम
- B) ओमान
- C) नेपाल
- D) चीन

**सही उत्तर: A**

वियतनाम-भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास "EX VINBAX 2022" का तीसरा संस्करण 1 से 20 अगस्त, 2022 तक हरियाणा के चंडीमंदिर में आयोजित किया जा रहा है।

### प्रश्न -8

भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ 'अल नजाह-IV' अभ्यास आयोजित कर रहा है?

- A) वियतनाम
- B) ओमान
- C) नेपाल
- D) चीन

**सही उत्तर: B**

भारत और ओमान आतंकवाद विरोधी सहयोग पर ध्यान देने के साथ 'अल नजाह-IV' नाम का लगभग दो सप्ताह का सैन्य अभ्यास करेंगे।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 अगस्त 2022

### प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किसने 2022 F1 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीता?

- A) जॉर्ज रसेल
- B) लुईस हैमिल्टन
- C) मैक्स वेरस्टैपेन
- D) उपरोक्त में से कोई नहीं

**सही उत्तर: C**

रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने 2022 F1 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है।

### प्रश्न -10

विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया?

- A) 28 जुलाई
- B) 29 जुलाई
- C) 30 जुलाई
- D) 31 जुलाई

**सही उत्तर: D**

विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को उन रेंजरों की याद में मनाया जाता है जो इ्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हो गए थे।